

## Chapter-6: द्वितीयक क्रियाएँ

### द्वितीयक आर्थिक क्रिया :-

प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल को जब मनुष्य अपना कौशल ज्ञान एवं श्रम लगाकर नये उपयोगी उत्पाद में बदल देता है तो इस द्वितीयक आर्थिक क्रिया कहा जाता है।

### विनिर्माण :-

विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु के उत्पादन से है। हस्तशिल्प से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, अंतरिक्ष यान का निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को विनिर्माण के अन्तर्गत ही माना जाता है।

### उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है :-

उद्योगों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 आधारों पर किया जाता है।

1. आकार के आधार पर
2. कच्चे माल के आधार पर
3. उत्पाद के आधार पर
4. सुवामित्व के आधार पर

### कुटीर उद्योग :-

कुटीर उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर स्थानीय कच्चे माल की सहायता से घर पर ही दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करते हैं।

### उत्पाद आधारित उद्योग :-

कुछ उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे लड़की की लुग्दी बनाने का उद्योग - कागज के उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करेगा। अतः कागज उद्योग उत्पाद आधारित उद्योग होगा।

### छोटे पैमाने के उद्योग :-

1. **निर्माण स्थल :-** इस प्रकार के उद्योग में निर्माण स्थल घर से बाहर करखाना होता है।
2. **कच्चा माल :-** इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है।
3. **रोजगार के अवसर :-** रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति

### बड़े पैमाने के उद्योग :-

1. उत्पादन, विकसित प्रौद्योगिक तथा कुशल श्रमिकों द्वारा किया जाता है।
2. उत्पादन अथवा उत्पादित माल को विशाल बाज़ार में बेचा जाता है।
3. इसमें उत्पादन की मात्रा भी अधिक होती है।
4. अधिक पूंजी तथा विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है।

### कौशल विशिष्टीकरण :-

बड़े पैमाने पर किया जाने वाला अधिक उत्पादन जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है।

### समूहन अर्थव्यवस्था :-

प्रधान उद्योग की समीपता से अन्य अनेक उद्योगों का लाभांवित होना समूहन अर्थव्यवस्था है।

### उपभोक्ता वस्तु उद्योग :-

उपभोक्ता वस्तु उद्योग ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। जैसे ब्रेड एवं बिस्कुट, चाय, साबुन इत्यादि।

### धुँ की चिमनी वाला उद्योग :-

परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश जिसमें कोयला खादानों के समीप स्थित धातु पिघलाने वाले उद्योग भारी इंजीनियरिंग, रसायन, निर्माण इत्यादि का कार्य किया जाता है। इन्हें धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहते हैं।

### **स्वच्छंद उद्योग :-**

ये वे उद्योग हैं जो किसी कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते वरन् संघटक पुरजों पर निर्भर रहते हैं।

### **स्वच्छंद उद्योग की विशेषताएँ :-**

1. स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं।
2. ये किसी विशिष्ट प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं।
3. ये उद्योग संघटन पुरजो पर निर्भर होते हैं।
4. इनमें कम मात्रा में उत्पादन होता है।
5. इन उद्योगों में श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है।
6. सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं।

### **कृषि व्यापार या कृषि कारखाने :-**

कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है इसका वित्त पोषण वह व्यापार करता है जिसकी मुख्य रुचि कृषि के बाहर हो। यह फार्म से आकार में बड़े यन्त्रीकृत, रसायनों पर निर्भर व अच्छी संरचना वाले होते हैं। इनको कृषि कारखाने भी कहा जाता है।

### **Q. लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है ?**

लौह - इस्पात उद्योग के उत्पाद को अन्य वस्तुएँ बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे :- लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग व अन्य उद्योगों के लिए मशीनें बनाता है। अतः यह सभी उद्योगों का आधार है।

### **Q. लोहा इस्पात उद्योग को भारी उद्योग क्यों कहते हैं?**

लोहा इस्पात उद्योगों को भारी उद्योग कहते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है, एवं इसके उत्पाद भी भारी होते हैं।

### **प्रौद्योगिक ध्रुव :-**

वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक रूप में सकेन्द्रित हैं, आत्मनिर्भर तथा उच्च विशिष्टता लिए होते हैं उन्हें प्रौद्योगिक ध्रुव कहा जाता है जैसे उदाहरण - सिलिकन घाटी (स.रा.अ.) बेंगलूरु (भारत में), सियटल के समीप सिलिकन वनघाटी।

### **जंग का कटोरा**

'नाम संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित पिट्सबर्ग को 'जंग का कटोरा' नाम से जाना जाता है क्योंकि पिट्सबर्ग लौह उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र था जिसका महत्व अब घट गया है।

### **आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण :**

- कुटीर उद्योग - (1) परिवार के सदस्यों की सहायता से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। (2) स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है तथा उपकरण एवं औजार साधारण होते हैं।
- छोटे पैमाने के उद्योग - (1) उत्पादन, ऊर्जा से चलने वाली मशीनों तथा मजदूरों द्वारा किया जाता है। (2) इसमें कच्चा माल स्थानीय बाजार में उपलब्ध न होने पर बाहर से भी मंगवाते हैं।
- बड़े पैमाने के उद्योग - (1) इसमें विभिन्न प्रकार का कच्चा माल बाहर से मँगवाया जाता है तथा आधुनिक भारी मशीनों का उपयोग होता है ये शक्ति चालित मशीनें होती हैं। (2) इसमें आधुनिक विकसित तकनीकी का प्रयोग करके तथा अधिक पूँजी लगाकर उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है।

**आधुनिक समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :-**

1. **कौशल का विशिष्टीकरण :-** आधुनिक उद्योगों में उत्पादन बड़े पैमाने पर होने के कारण कौशल का विशिष्टीकरण हो जाता है जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है। कारीगर निर्दिष्ट कार्य के लिये प्रशिक्षित होते हैं।
2. **यन्त्रीकरण :-** यन्त्रीकरण से तात्पर्य है कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना आधुनिक उद्योग स्वचालित यन्त्रीकरण की विकसित अवस्था है।
3. **प्रौद्योगिकीय नवाचार :-** आधुनिक उद्योगों में नया तकनीकी ज्ञान, शोध व विकासमान युक्तियों को सम्मिलित किया गया है जिसमें विनिर्माण की गुणवत्ता को नियन्त्रित करना, अपशिष्टों का निस्तारण व अदक्षता को समाप्त करना व प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करना मुख्य है।
4. **संगठनात्मक ढाँचा व स्तरीकरण :-** इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में संगठनात्मक ढाँचा बड़ा, पूँजी का निवेश अधिक कर्मचारियों में प्रशासकीय अधिकारी वर्गों का बाहुल्य होता है।

### स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण :-

#### सार्वजनिक क्षेत्र :-

1. ऐसे उद्योग सरकार के अधीन होते हैं।
2. सरकार ही इनका प्रबंध करती है।
3. भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के बीच हैं जैसे लोह इस्पात उद्योग।
4. अधिकतर समाजवादी, साम्यवादी देशों में ऐसा होता है।

#### निजी क्षेत्र :-

1. ऐसे उद्योगों का मालिक एक व्यक्ति या एक कम्पनी होती है।
2. व्यक्ति या निजी कंपनियां इन उद्योगों का प्रबंधन करती हैं।
3. पूँजीवाद देशों में यह व्यवस्था होती है।
4. भारत में टाटा समूह, विरला, रिलायंस इंडस्ट्री इसके उदाहरण

#### संयुक्त क्षेत्र :-

1. कुछ उद्योगों का संचालन सरकार और निजी कंपनियाँ मिलकर करती है।
2. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) तथा मितल एनर्जी लिमिटेड साझेदारी (HPCLMittal energy limited (HMFL) इसका उदाहरण है।

### उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारको :-

1. **कच्चे माल की उपलब्धता :-** उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन सस्ते मूल्य एवं वजन घटाने वाले पदार्थों व शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत के समीप ही स्थित हो। जैसे लौह - इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग।
2. **अनुकूल जलवायु :-** कुछ उद्योग विशेष प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्रों में ही स्थापित किये जाते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में सूती वस्त्र उद्योग विकसित होने में नमी वाले पर्यावरण का लाभ मिला है। नमी के कारण कपास से वस्त्र की कटाई आसान हो जाती है। अत्याधिक ठंडे व अत्याधिक गर्म प्रदेशों में उद्योगों की स्थापना कठिन कार्य है।
3. **शक्ति के साधन :-** वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वे ऊर्जा के स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग।
4. **श्रम की उपलब्धता :-** बढ़ते हुए यंत्रिकरण, स्वचालित मशीनों इत्यादि में उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता को कम किया है, फिर भी कुछ प्रकार के उद्योगों में अब भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है। अधिकांश उद्योग सस्ते व कुशल श्रमिकों की उपलब्धता वाले स्थानों पर अवस्थित होते हैं। स्विटजरलैंड का घड़ी उद्योग व जापान का इलैक्ट्रॉनिक उद्योग कुशल और दक्ष श्रमिकों के बल पर ही टिके हैं।
5. **पूँजी :-** किसी भी उद्योग के सफल विकास के लिए पर्याप्त पूँजी का उपलब्ध होना अनिवार्य है। कारखाने के लिए जमीन, मशीने, कच्चा माल, श्रमिकों को वेतन देने के लिए पर्याप्त पूँजी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यूरोप में पर्याप्त मात्रा में पूँजी उपलब्ध होती है तथा वहाँ उद्योग भी काफी विकसित है।